

GULMOHAR INVESTMENTS AND HOLDINGS LIMITED

Regd Office : 324A, IIIrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110 085
Email Id : gulmoharlimited@gmail.com, **Tel. :** 011-27860681, **Website :** gulmoharinvestments.com
CIN : L65993DL1982PLC013956

03.08.2019

To

Metropolitan Stock Exchange of India Limited (Formerly known as MCX Stock Exchange Limited) 4 th Floor, Vibgyor Tower, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai – 400 098	The Calcutta Stock Exchange Limited 7, Lyons Range, Kolkata-700 001
Symbol : GIHL	Script Code: 17433

Dear Sir,

Sub.: Newspaper advertisement of notice of 02/2019-2020 board meeting scheduled to be held on Monday, 12th August, 2019 at 01:00 P.M.

With reference to the Regulation 47 & 29 and other applicable regulations, if any, of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are submitting herewith the copy of newspaper advertisement published in English language national daily newspaper circulating in the whole or substantially whole of India i.e. "FINANCIAL EXPRESS" and Hindi newspaper i.e. "JANSATTA" on 3rd August, 2019..

This is for your information and records.

Thanking You,
Yours truly

For **Gulmohar Investments and Holdings Limited**




Kiran Mittal
Director
DIN: 00749457

Encl. Copy of Newspaper Advertisement



DHARANI FINANCE LIMITED

Regd. Office : No. 59 Sterling Road, Nungambakkam, Chennai - 600 034
CIN-L65191TN1990PLC019152
Tel: 91-44-2831 1313
Fax: 91-44-2823 2074
Email: secretarial@dharanifinance.in
Web site: www.dharanifinance.in

NOTICE

A meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Tuesday, August 13th 2019**, at the Registered Office to consider the Unaudited Financial Results for the **Quarter ended June 30th, 2019**.

The information is also available on the Company's website www.dharanifinance.in and also on the website of the Stock Exchange viz BSE Limited - www.bseindia.com.

for Dharani Finance Limited

Date : 03.08.2019 Dr. S. Kuppan
Place : Chennai - 34 Company Secretary



METAL COATINGS (INDIA) LIMITED
Registered office: 912, Hemkunt Chambers, 89, Nehru
CIN: L74899DL1994PLC063387, Website:
Email: Info@mlcindia.net, Tel: 011-4

NOTICE

Transfer of equity shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) pursuant to the provisions of Investor Education and Protection Fund (Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules"), the Company has received a request from the Registrar of Companies, New Delhi, for the transfer of equity shares of the Company to IEPF. The details of the shares to be transferred are as follows:

In compliance to the Rules, the Company has communicated individually to the shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF during the Financial Year 2018-19, the details of such shares liable to be transferred to IEPF are also made available on the Company's website. Shareholders concerned may refer to the website to verify the details of the shares to be transferred.

Shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF are requested to submit the original share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) to the Company for transfer in favour of IEPF.

The shareholders may further note that the details uploaded by the Company in respect of the shares to be transferred to IEPF are also made available on the Company's website.

In case the Company does not receive any communication from the shareholders in respect of the shares to be transferred to IEPF, the Company will proceed with the transfer of shares to IEPF in accordance with the procedure stipulated in the Rules. The corresponding shares on which dividend shall also be transferred without any further notice.

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividends. Shareholders may claim the dividend and corresponding shares accruing on such shares, if any, from the IEPF authorities after following the procedure stipulated in the Rules. For any queries on the above matter, the shareholders are requested to contact the Transfer Agents, Link Intime India Private Limited, Noble Heights, 1st Floor, Market, Janakpuri, New Delhi-110058. Email: delhi@linkintime.co.in; Web: www.linkintime.com

Place: New Delhi
Date: 02.08.2019

RCC Cements Limited

CIN-L26942DL1991PLC043776
Regd. Office: 702, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001
Email id: rccementslimited@gmail.com
Tel.: 91-11-43571044, Fax: 91-11-43571047

NOTICE OF BOARD MEETING

In pursuance to Regulation 33 read with Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors will be held on Monday, 12th August, 2019, at the Regd. Office of the Company, inter alia, to consider, approve and adopt Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2019.

The said information is also available on the Company's website at www.rccements.com and at BSE's website i.e. www.bseindia.com.

For RCC Cements Limited
Sd/-

Date: 03-08-2019 Sunil Kumar
Place: New Delhi (Managing Director)
DIN: 00175301

INTERWORLD DIGITAL LIMITED

CIN-L72900DL1995PLC067808
Regd. Office: 701, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001
Email Id - interworlddigital.in@gmail.com
Tel. No. : 011-43571044-45; Fax No. : 011-43571047

NOTICE OF BOARD MEETING

In pursuance to Regulation 33 read with Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors will be held on Tuesday, 13th August, 2019, at the Regd. Office of the Company, inter alia, to consider, approve and adopt Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2019.

The said information is also available on the Company's website at www.interworlddigital.in and at BSE's website i.e. www.bseindia.com.

By Order of Board
For Interworld Digital Limited
Sd/-

Date: 03-08-2019 Peeyush Kumar Aggarwal
Place: New Delhi (Director)
DIN: 00090423

SAI MOH AUTO LINKS LIMITED

CIN: L34300DL1985PLC020510
Regd.: C-582, Saraswati Vihar, Pitampura, Delhi-110034
Email Id: salmohauto@gmail.com
Tel. 91-11-27032702, Fax: 91-11-27032702

NOTICE OF BOARD MEETING

In pursuance to Regulation 33 read with Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors will be held on Tuesday, 13th August, 2019, at the Regd. Office of the Company, inter alia, to consider, approve and adopt Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2019.

GULMOHAR INVESTMENTS AND HOLDINGS LIMITED

Regd. Off.: 324A, 11/rd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085
CIN: L65993DL1982PLC013956,
Email id: gulmoharlimited@gmail.com,
Tel.: 011-27860681
Website: www.gulmoharinvestments.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 & 29 read with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of Gulmohar Investments and Holdings Limited ("the Company") is scheduled to be held on Monday, 12th August, 2019 at 01:00 P.M. at the registered office of the Company situated at 324A, 11/rd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085, inter-alia, to Consider and approve:

- the Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter ended 30th June, 2019.
- Any other item with the permission of the Chair, if any.

Further, Pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and BSE circular LIST/COMP/01/2019-20 dated April 02, 2019, the Trading window shall remain closed from 2nd August, 2019 till 48 hours after the declaration of financial results for the quarter ended 30th June, 2019 for the Promoters, Directors, Designated Employees of the Company and all persons covered under the Regulation.

For Further details visit the website of the Company (www.gulmoharinvestments.com) and website of the Stock Exchange(s) where the securities of the company are listed i.e. Metropolitan Stock Exchange of India Limited (www.mseil.in) and The Calcutta Stock Exchange Limited (www.cse-india.com)

For and on behalf of the Board
Gulmohar Investments and Holdings Limited
Sd/-

Place: New Delhi Kiran Mittal
Date: 02.08.2019 Director
DIN: 00749457

LANCER CONTAINERS

Mayuresh Chambers Premise
Unit No.H02-2, H02-3 & H02-4
CBD-Belapur, Navi Mumbai - 400614
E-Mail id: secretarial@lancermarine.com
CIN No: L74990MH

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the company is scheduled to be held on Tuesday, 13th August, 2019, at 03.00 P.M. at the registered office of the company situated at Unit No.H02-2, H02-3 & H02-4, Belapur, Navi Mumbai - 400614, inter alia, to consider, approve and adopt Unaudited Financial Results and Limited Review Report thereon for the quarter ended June 30, 2019. The said information is also available on the website of the company www.lancermarine.in and at BSE's website www.bseindia.com.

ANDREW YULE & COMPANY LIMITED

(A Government of India Enterprise)
CIN: L63090WB1919GOI003229

Office: "Yule House", 8, Dr. Rajendra Prasad Sarani, New Delhi-110001, Ph.: 033 2242-8210 / 8550, Fax No.: 033 2242-9770
E-mail: sec@andrewyule.com; Website: www.andrewyule.com

NOTICE

In pursuance to Regulation 47 read with Regulations 29 and 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held at the Registered Office of the Company on Tuesday, 13th August, 2019 at 11.30 a.m. will, inter alia, consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended June, 2019.

The said information is also available on the Company's website at www.andrewyule.com and at BSE's website www.bseindia.com.

By Order of the Board,
For Andrew Yule & Company Limited
Sd/-
(Sucharita Das)
Company Secretary

FINE ORGANICS

ANIL INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: Anandji Street, Off M G Road, Ghatkopar (East), New Delhi-110008, Ph.: +91 (022) 21025000, Fax: +91 (022) 21028899
Email: sec@fineorganics.com; Web: www.fineorganics.com;
CIN: L24119MH2002PLC136003

Notice of Board Meeting

In pursuance to Regulation 47 read with Regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of Anil Industries Limited is convened on Tuesday, 13th August, 2019, at the Registered Office of the Company, inter alia to consider and approve the standalone and consolidated financial results for the quarter ended June 30, 2019. The said information is also available on the Company's website at www.fineorganics.com and may also be accessed on the Stock Exchange website <http://www.bseindia.com> and <http://www.nseindia.com>.

For Fine Organic Industries Limited
Sd/-
Pooja Gaonkar
Company Secretary and Compliance Officer

MARUTI SUZUKI

MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED

CIN: L34103DL1981PLC011375
Regd. Office: 4th Floor, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi-110 070
Ph: +91 (11) 46781000, Fax: +91 (11) 46150275
Email: marutisuzuki.com, investor@maruti.co.in

NOTICE

For the 38th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company, the meeting will be held on Tuesday, 27th August, 2019 at 10:00 a.m. at Air Force Auditorium, Connaught Place, New Delhi-110 010 to transact the Ordinary and Special Business as set out in the Notice.

The Companies Act, 2013 ("Act") read with the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("Listing Regulations"), the register of members of the Company will remain closed from Saturday, 24th August, 2019, to Tuesday, 27th August, 2019 (both days inclusive) for the purpose of receiving dividend on equity shares, if declared in the interim dividend.

The dispatch of the notice of AGM and the Annual Report for 2018-19 are being made available on the Company's website www.marutisuzuki.com and <http://evoting.karvy.com>. The communication will also be made available on the Company's website www.marutisuzuki.com and <http://evoting.karvy.com>. The communication is inter-alia, containing user ID and password has been dispatched to the members of the Company.

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the company is scheduled to be held on Tuesday, 13th August, 2019, at 03.00 P.M. at the registered office of the company situated at Unit No.H02-2, H02-3 & H02-4, Belapur, Navi Mumbai - 400614, inter alia, to consider, approve and adopt Unaudited Financial Results and Limited Review Report thereon for the quarter ended June 30, 2019. The said information is also available on the website of the company www.lancermarine.in and at BSE's website www.bseindia.com.

Criminal Courts Ludhiana
In The Court Of Sh. Gurdarshan Singh JMJC
Ludhiana

Next Date, Purpose Of Case, Orders & Judgements

2. Amit Bansal Prop/ Auth Sign Of M/s Mannal Textiles & Trading Co. R-39, Shop No.23, Diamond Complex, Main Market, Ramesh Park, Laxmi Nagar, Delhi-110092
Whereas it Has Been Proved To The Satisfaction Of The Court That You, The Above Named Accused/ Accused Person's Can't Be Served In The Ordinary Way Of Service, Hence This Proclamation Under 82 Code Of Criminal Procedure Is Hereby Issued Against You With A Direction That You Should Appear Personally Before This Court On 13/09/2019 At 10:00 A.m or Within 30 Days From The Date Of Publication Of This Proclamation. Take Notice That In Default Of Your Part To Appear As Directed Above The Above Said Case Will Be Heard & Determined As Per Law In Your Absence. For Details Log On To http://highcourtdelhi.gov.in/21rsdsdistrict_notice&district=ludhiana Dated This Day Of 22/07/19 JMJC Ludhiana

COURT NOTICE

Criminal Courts Ludhiana
In The Court Of Sh. Gurdarshan Singh JMJC
Ludhiana

Next Date, Purpose Of Case, Orders & Judgements As Well As Other Case Information Is Available On <http://highcourtdelhi.gov.in>
CNR NO. PBLD03-049888-2017

Ravinder Pal Singh
VS
Mansa Garments Collections

Next Date: 13/09/2019 Notice To:-
1. M/s Mansa Garments Collection R-39, Shop No.03, Diamond Complex, Main Market, Ramesh Park, Laxmi Nagar, Delhi-110092, Through its Prop Arun Tyagi
2. Arun Tyagi Prop/ Auth Sign Of M/s Mansa Garments Collection R-39, Shop No.03, Diamond Complex, Main Market, Ramesh Park, Laxmi Nagar, Delhi-110092

Whereas it Has Been Proved To The Satisfaction Of The Court That You, The Above Named Accused/ Accused Person's Can't Be Served In The Ordinary Way Of Service, Hence This Proclamation Under 82 Code Of Criminal Procedure Is Hereby Issued Against You With A Direction That You Should Appear Personally Before This Court On 13/09/2019 At 10:00 A.m or Within 30 Days From The Date Of Publication Of This Proclamation. Take Notice That In Default Of Your Part To Appear As Directed Above The Above Said Case Will Be Heard & Determined As Per Law In Your Absence. For Details Log On To http://highcourtdelhi.gov.in/21rsdsdistrict_notice&district=ludhiana Dated This Day Of 22/07/19 JMJC Ludhiana



अहलुवालिया कॉन्टैक्टिव (इंडिया) लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: प्लॉट नं. ए-177, अकाल इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020
(CIN:L45101DL1979PLC009654)
वेबसाइट: www.acilnet.com
ई-मेल: cs.corporate@acilnet.com

सूचना

सूचना

99DL1994PLC059341,
नं. 120-4125476

सूचना

अनिवार्यताएं एवं प्रकटीकरण वली, 2015 के विनियम 47 के अंतर्गत 29 के अनुसार, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अन्य बातों के अतिरिक्त, 2019 को समाप्त पहली तिमाही के वित्तीय परिणामों पर चर्चा हेतु ओएसएल लिमिटेड की बोर्ड की बैठक शनिवार, 10 अगस्त 4:30 बजे कंपनी के कार्यालय, ए-89, सेक्टर 2, नोएडा-2013012, में आयोजित की जाएगी।

कंपनी की वेबसाइट www.olcp.com पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेशानुसार
ओएसएल लिमिटेड
हस्ता./-
(बी.के. नरुला)
प्रबंध निदेशक
DIN: 00003629

मटाइल्स लिमिटेड

एन.एल.ए. कालकाजी पोस्ट, नई दिल्ली-110019
8101डीएल1989डीएलसी034528
-26213012 / 26236986
+91-26465227

सूचना

दी जाती है कि सेबी (सूचीयन और प्रकटीकरण) विनियमावली, 2015 के अंतर्गत 29 एवं 47 के प्रावधानों के अंतर्गत, 2019 को समाप्त पहली तिमाही के वित्तीय परिणामों पर चर्चा हेतु ओएसएल लिमिटेड की बोर्ड की बैठक शनिवार, 10 अगस्त 4:30 बजे कंपनी के कार्यालय, ए-89, सेक्टर 2, नोएडा-2013012, में आयोजित की जाएगी।

कंपनी की वेबसाइट www.olcp.com पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेशानुसार
ओएसएल लिमिटेड
हस्ता./-
(बी.के. नरुला)
प्रबंध निदेशक
DIN: 00003629

GULMOHAR INVESTMENTS AND HOLDINGS LIMITED
Regd. Off.: 324A, 11rd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085
CIN: L65993DL1982PLC013956,
Email: gulmoharlimited@gmail.com,
Tel.: 011-27860681
Website: www.gulmoharinvestments.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 & 29 read with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of Gulmohar Investments and Holdings Limited ("the Company") is scheduled to be held on Monday, 12th August, 2019 at 01:00 P.M. at the registered office of the Company situated at 324A, 11rd Floor, Aggarwal Plaza, Sector- 14, Rohini, New Delhi- 110085, inter-alia, to consider and approve:

- i. the Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter ended 30th June, 2019.
- ii. Any other item with the permission of the Chair, if any

Further, Pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and BSE circular LIST/COMP/01/2019-20 dated April 02, 2019, the Trading window shall remain closed from 2nd August, 2019 till 48 hours after the declaration of financial results for the quarter ended 30th June, 2019 for the Promoters, Directors, Designated Employees of the Company and all persons covered under the Regulation.

For Further details visit the website of the Company (www.gulmoharinvestments.com) and website of the stock Exchange(s) where the securities of the Company are listed i.e. Metropolitan Stock Exchange of India Limited (www.msx.in) and The Calcutta Stock Exchange Limited (www.cse-india.com)

For and on behalf of the Board
Gulmohar Investments and Holdings Limited
Sd/-
Kiran Mittal
Director
Place: New Delhi
Date: 02.08.2019
DIN: 00749457

प्रादेशिक निदेशक उत्तरी क्षेत्र के समक्ष नई दिल्ली में हेड क्वार्टर

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (6) छ के खंड (क) छ के मामले में

श्री-मार्क इलेक्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 203, आदित्य कॉम्प्लेक्स लोकल शॉपिंग सेंटर, सविता विहार नई दिल्ली 110092 में स्थित है के मामले में

यधिकारकर्ता आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 और कम्पनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 30 के उपनियम 5 के खंड (अ) के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से उत्तराखण्ड राज्य में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 05 जुलाई 2019 को आयोजित असाधारण अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी से संघम ज्ञापन में संशोधन की प्रकृति को मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निदेशक शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर श्री-2 बिग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अन्तर्दय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुदृढ़ कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा

श्री-मार्क इलेक्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 203, आदित्य कॉम्प्लेक्स लोकल शॉपिंग सेंटर, सविता विहार नई दिल्ली 110092

कृते श्री-मार्क इलेक्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड

हस्ता./-
विकास गर्ग
निदेशक
पता: 199/25बी महावीर ब्लॉक भोले नाथ नगर शाहदरा नई दिल्ली - 110032

आईओएल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि.

पंजी. कार्यालय: इंडेन्ट कॉम्प्लेक्स, राइकोट रोड, बरनाला-148101 (पीबी)

CIN: L24116PB1986PLC007030,

फोन: +91-1679-244701-07, फैक्स: +91-1679-244708

ई-मेल: contact@iolcp.com, वेबसाइट: www.iolcp.com

32वें वार्षिक साधारण सभा, ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 32वीं वार्षिक साधारण सभा गुरुवार, 29 अगस्त, 2019 को 11.00 बजे पूर्वा. में ट्राइडेंट कॉम्प्लेक्स, राइकोट रोड, बरनाला में उसके पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमें उक्त एजीएम के आमंत्रण सूचना में निर्दिष्ट व्यवस्थाओं को निम्नलिखित किया जाएगा।